

AR-1077

B.Com. (Part—I) Examination
FINANCIAL ACCOUNTING
(Commerce)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

N.B. :— (1) Attempt **ALL** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (A) Give the two definitions of 'Journal'. 3
(B) Following are the Assets and Liabilities of Shri Ashok on 1st April, 2015 :

	₹
Cash in hand	1,500
Cash at Bank	7,500
Stock of goods	15,000
Furniture	3,000
Machinery	30,000
Loan from Smita	7,500
Creditors for Purchases	4,500
Pass Joint entries.	3

- (C) From the following details prepare Trial Balance :

Cash ₹ 12,400; Accounts Receivable ₹ 880;
Purchases ₹ 1,840; Prepaid Insurance ₹ 1,600;

Equipments ₹ 17,600; Capital ₹ 14,800,
Drawing ₹ 1,680; Accounts Payable ₹ 16,800;
Sales ₹ 5,960; Legal Expenses ₹ 1,560. 4

- (D) If the assets of a business are ₹ 5,00,000 and liabilities are ₹ 3,00,000, how much is the owner's equity.? 4

OR

- (E) Explain Dual Aspect Concept. 3
(F) Record the following transactions in the Purchase Return Book of Shri Ramesh :

March

2015	₹
8 Returned goods to Dinesh	1,200
15 Returned goods to Keshao	750
20 Returned goods to Neha	1,250
26 Returned goods to Yamuna	500
30 Returned goods to Kanta	800
	3

- (G) From the following transactions prepare Simple Petty Cash Book :

January

2015	₹
1 Received cheque from cashier	2,100
4 Paid Newspaper Bill	125

January

2015	₹
8 Paid Taxi fare	180
10 Paid labour charges	250
22 Purchased stationery	350
25 Paid coolie charges	700
31 Purchased Revenue Stamp	345
	4

(H) If the owner's equity is ₹ 10,00,000 and liabilities are ₹ 2,00,000, how much are the assets ? 4

2. (A) Prepare "Trading A/c" for the year ended 31st March, 2015 from the balances given below :

	₹
Opening Stock	10,000
Purchases of goods (including cash purchases of ₹ 30,000)	2,20,000
Sales of goods (including Credit Sales of ₹ 60,000)	2,18,800
Coolie charges paid (including ₹ 1,000 paid for goods sold)	3,000
Commission paid on purchases	4,000
Closing Stock of goods	7,500

	₹
Transportation charges paid on goods purchases	4,000
Insurance charges paid on goods purchased	3,000
Octroi and other taxes (including sales tax ₹ 13,000)	20,000
Purchases Return	10,000
Sales Return	5,000
	3

- (B) Prepare 'Balance Sheet' as on 31st March, 2015 with the help of following information :

	₹
Cash at Bank	30,000
Creditors	28,000
Outstanding Rent	1,000
Debtors	54,000
Closing Stock	12,000
Capital	2,00,000
Net Loss	48,000
Prepaid Wages	4,000
Machinery	63,000
Drawing	18,000
	3

(C) Pass Journal Entries necessary to rectify the following errors :

- (i) An amount of ₹ 5,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses A/c.
- (ii) Purchase of goods from Santosh amounting to ₹ 10,000 has been wrongly entered in the Sales book. 4

(D) Pass the rectifying entries for the following errors :

- (i) Goods of ₹ 4,000 were purchased from Nitin but it was recorded in Sales Book.
- (ii) A cheque of ₹ 1,200 received from Nilima has been dishonoured and debited to discount A/c. 4

OR

(E) From the following particulars prepare 'Manufacturing Account' for the year ending 31st March, 2015 :

₹

Opening Stock :

Raw Materials	1,00,000
Work-in-Progress	70,000
Finished goods	1,20,000

	₹
Closing Stock :	
Raw Materials	40,000
Work-in-Progress	80,000
Finished goods	1,50,000
Purchase of Raw Materials	6,00,000
Purchase Return	5,000
Sales	9,00,000
Sales Return	20,000
Wages	45,000
Power	26,000
Carriage inward	20,000

3

- (F) Prepare 'P & L A/c' for the year ended 31st March, 2015 :

	₹
Salary	60,000
Audit fee	1,875
Bad debt	3,750
Interest (Cr.)	7,500
Contribution to Provident Fund	33,000
Gross Profit	1,35,000
Depreciation on building	36,000
Commission (Dr.)	5,250
Rent (Cr.)	6,000

3

(G) Pass the rectifying entries for the following errors :

(i) Goods of ₹ 6,000 were sold to Mahesh but it was recorded in the purchase book.

(ii) A cheque of ₹ 4,000 received from Sharad has been dishonoured and is debited to discount A/c. 4

(H) What is 'Suspense Account' ? 4

3. (A) Ajay Industries purchased a machine on 1st January, 2015 costing ₹ 96,400 and spent ₹ 3,600 on its installation. It is estimated that life of machine will be 10 years and its scrap value at the end of its life will be ₹ 4,000. The books are closed on 31st March every year.

Calculate the Amount of Depreciation for first year. 3

(B) From the information given below, prepare the 'Income & Expenditure Account' for the year 2015 :

₹

Payments :

Wages	10,000
Furniture Purchased	30,000
Sport Material Purchased	25,000
Sundry Expenses	1,52,000

₹

Receipts :

Balance (1-4-2014)	50,000
Subscriptions	1,65,000
Members Fee	1,20,000
Sale of Scrap	2,000
Interest on Sport Fund Investment	20,000

Additional Information :—

(i) Subscription outstanding ₹ 10,000

(ii) Wages Outstanding ₹ 10,000. 3

- (C) Shri Kiran Kumar purchased Machinery on 1st October, 2012 at a cost of ₹ 45,000 and spent ₹ 5,000 on its installation. The rate of depreciation is 10% under Reducing Balance method. Accounts are closed on 31st March every year.

Prepare 'Machinery Account' for three years.

4

- (D) Which organisations prepare Income and Expenditure Accounts ? 4

OR

(E) From the following balances prepare a 'Balance Sheet' of 'Tushar' Sports Club as on 31st March, 2015 :

	₹		₹
Cash in hand	21,600	Government Securities	1,60,000
Subscription Received in advance	400	Unpaid Salary	2,400
Furniture	4,000	Building	4,00,000
Subscription Outstanding	14,000	Investment	7,600
Capital Fund	6,04,400		

3

(F) Prepare 'Income and Expenditure A/c' for the year 31st March, 2015, from the following balances :

Receipts	₹
Opening Balance	50,000
Subscription received	90,000
Life Membership fees (Revenue)	1,00,000
Sale of old newspapers	2,000
Interest on investment	10,000
	2,52,000

Payments	₹
Wages and Salary	10,000
Furniture	20,000
Sports Material	12,000
Other Expenditure	70,000
Closing Balance	1,40,000
	2,52,000

Additional Information :—

- (i) There are 1100 life members of the club required to pay the membership fees of ₹ 100 each.
- (ii) Sundry Expenditure Outstanding by ₹ 2,000.

3

- (G) On 1st April, 2014 a Limited Company purchased machinery worth of ₹ 1,00,000. On 1st October, 2014 it buys additional machinery worth ₹ 46,000 and spent ₹ 4,000 on its erection. Account are closed on 31st March every year. Rate of deprecation 10% under Straight Line method.

Pass Journal entries for first year. 4

- (H) Explain the advantages and disadvantages of Written Down Value method. 4

4. Trial Balance of a Sales Purchase Co-operative Society as on 31st March, 2015 is given below :

Dr.	₹	Cr.	₹
Purchases	55,00,000	Sales	54,08,000
Carriage	90,000	Loan from Bank	5,00,000
Wages	20,000	Commission	
Furniture	2,00,000	Received	4,20,000
Salaries	2,80,000	Bills Payable	1,50,000
Travelling Exp.	18,000	Creditors	2,00,000
Rent	38,000	Machinery	
Opening Stock	4,04,000	Depreciation	
Bills Receivable	1,50,000	Fund	20,000
Postage	9,000	Share Capital	4,00,000
Advertisement	24,000	P & L A/c	30,000
Interest paid	2,58,000		
Cash at Bank	10,000		
Cash in Hand	9,000		
Insurance Premium	18,000		
Machinery	1,00,000		
	71,28,000		71,28,000

Adjustments :—

- (i) Closing Stock ₹ 16,00,000.
- (ii) 10% Depreciation charged on book value of Machinery.
- (iii) Unpaid Salaries ₹ 10,000.
- (iv) Prepaid Insurance Premium ₹ 2,000.
- (v) Interest due but not received is ₹ 6,000.
- (vi) Make provision of 9% dividend to the shareholders.

From the above information, prepare Trading A/c, P & L A/c, P & L Appropriation A/c and Balance Sheet.

14

OR

Explain, why Accounting in Agricultural Operation is not popular. Mention features of Farm accounting ?

14

5. Shri Divakar has applied for Insolvency in the court on the basis of following information on 1st April, 2015 :
- (i) Capital ₹ 80,000; Trading Loss ₹ 70,000; Interest on Capital ₹ 15,000; Non Trading Profit ₹ 19,000 and Non Trading Loss ₹ 9,000.
 - (ii) Creditors ₹ 80,000; Bills Payable ₹ 20,000; Overdraft ₹ 10,000.

- (iii) Bank loan ₹ 60,000 (Mortgage a machine of ₹ 70,000) and partly secured creditors (Second Mortgage on Surplus of Machine ₹ 30,000).
- (iv) Building ₹ 50,000 (40% realized), furniture ₹ 25,000 (60% realised), Bills Receivable ₹ 20,000 (at par), Investment ₹ 60,000 (50% realized) Cash ₹ 16,000.
- (v) Sundry debtors — Good ₹ 24,000; Doubtful ₹ 20,000 (1/5 recovered) Preferential Creditors ₹ 50,000.

Prepare Statement of Affairs and Deficiency Account on the basis of above information. 14

OR

From the information given below, prepare a 'Statement of Affairs' and 'Deficiency Account' of Mr. Befikir.

	₹
Capital as on 1-4-2014	44,790
Drawing as on 31-3-2015	18,610
Loss on trading as on 31-3-2015	29,300
Preferential Creditors	2,080
Unsecured Creditors	80,640
Cash at Bank	230
Cash in hand	70

	₹
Book Debts (estimated to produce ₹ 20,500)	27,370
Stock (estimated to produce ₹ 8,300)	13,200
Plant and Machinery (estimated to produce ₹ 15,000)	21,250
Furniture (estimated to produce ₹ 1,200)	2,480
Factory building (estimated to produce ₹ 55,000 subject to mortgage of ₹ 45,000)	60,000
	14

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) रोजकिर्दी दोन व्याख्या द्या. 3
- (ब) 1 एप्रिल, 2015 रोजी श्री अशोक यांची संपत्ती व देयता खालील प्रमाणे आहेत.

	₹
हस्तस्थ रोख	1,500
अधिकोषस्थ रोख	7,500
वस्तुंचा स्कंध	15,000

	₹
उपस्कर	3,000
यंत्र	30,000
स्मिता कडून कर्ज	7,500
खरेदीसाठी उत्तमर्ण	4,500
संयुक्त किर्द नोंद	3
(क) खालील माहितीवरून तेरीज तयार करा :	
रोख ₹ 12,400; प्राप्य लेखे ₹ 880; खरेदी ₹ 1,840; पूर्वदत्त विमा ₹ 1,600; साधणे ₹ 17,600; भांडवल ₹ 14,800, उचल ₹ 1,680; देय लेखे ₹ 16,800; विक्री ₹ 5,960; वैध व्यय ₹ 1,560.	4
(ड) जर एका व्यवसायाची संपत्ती ₹ 5,00,000 व देयता ₹ 3,00,000 आहेत. तर स्वामित्व समता किती ?	4

किंवा

- (इ) द्वि प्रभाव संकल्पना स्पष्ट करा. 3
- (फ) खालील व्यवहार श्री रमेशच्या खरेदी परत पुस्तकात नोंदवा :

मार्च

2015

	₹
8 दिनेशला वस्तु परत	1,200
15 केशवला वस्तु परत	750
20 नेहाला वस्तु परत	1,250
26 यमुनाला वस्तु परत	500
30 कांताला वस्तु परत	800

3

(ग) खालील माहिती वरून साधे लघुरोख पुस्तक तयार करा :

जानेवारी

2015

₹

1	रोखपाला कडून घनादेश मिळाला	2,100
4	वर्तमान पत्राची वर्गणी दिली	125
8	टॅक्सी भाडे दिले	180
10	मजूरी दिली	250
22	लेखन सामुग्री खरेदी	350
25	हमाली दिली	700
31	राजेस्व मुद्रांक खरेदी	345

4

(ह) जर स्वामित्व समता ₹ 10,00,000 व देयता ₹ 2,00,000, असेल तर संपत्ती किती ?

4

2. (अ) 31 मार्च, 2015 रोजीच्या खालील आधिकावरून व्यापार पत्रक तयार करा :

₹

मालाचा प्रारंभण स्कंध	10,000
मालाची खरेदी (₹ 30,000 नगदी खरेदीसह)	2,20,000
मालाची विक्री (₹ 60,000 उधार विक्रीसह)	2,18,800
हमाली खर्च दिला (₹ 1,000 खर्च माल विक्रीशी संबंधित आहे)	3,000

	₹
माल खरेदीवर वर्तन दिले	4,000
मालाचा संवरण स्कंध	7,500
मालाच्या खरेदीवरील वाहतूक खर्च	4,000
माल खरेदी वरील विम्याचा खर्च	3,000
जकात कर व इतर कर (₹ 13,000 विक्रीकर समाविष्ट)	20,000
खरेदी परत	10,000
विक्री परत	5,000
	3

(ब) खालील आधिकांच्या आधारे 31 मार्च, 2015 रोजीचे स्थितीविवरण तयार करा :

	₹
बँक शिल्लक	30,000
धनको	28,000
अदत्त भाडे	1,000
ऋणको	54,000
संवरण स्कंध	12,000
भांडवल	2,00,000
शुद्धतोटा	48,000
पूर्वदत्त मजूरी	4,000
यंत्र सामुग्री	63,000
आहरण	18,000
	3

(क) खालील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक किर्दनोंदी लिहा :

- (i) दुकान मालकाने स्वतःच्या खाजगी कामासाठी ₹ 5,000 ची उचल केली त्याची नोंद व्यापार खर्च खात्यात नावे टाकण्यात आली.
- (ii) संतोष कडून खरेदी केलेल्या ₹ 10,000 मालाची नोंद चुकीने विक्री पुस्तकात करण्यात आली. 4

(ड) खालील चुकांच्या दुरुस्ती करिता नोंदी करा :

- (i) नितीन कडून ₹ 4,000 चा माल खरेदी केला परंतु त्याची नोंद विक्री पुस्तकात करण्यात आली.
- (ii) निलिमा कडून ₹ 1,200 चा धनादेश मिळाला ज्याचे अनादरण झाले आणि तो कसर लेख्याला नावे करण्यात आला. 4

किंवा

(इ) खालील माहितीच्या आधारे 31 मार्च, 2015 ला संपणाऱ्या वर्षाकरीता 'उत्पादन लेखा' तयार करा :

₹

प्रारंभण स्कंध :

कच्चा माल	1,00,000
अर्धतयार माल	70,000
तयार माल	1,20,000

संवरण स्कंध :

कच्चा माल	40,000
अर्धतयार माल	80,000
तयार माल	1,50,000

	₹
कच्चा मालाची खरेदी	6,00,000
खरेदी परत	5,000
विक्री	9,00,000
विक्री परत	20,000
मजूरी	45,000
शक्ती	26,000
आगत वाहन व्यय	20,000

3

(फ) 31 मार्च, 2015 ला संपणाऱ्या वर्षाकरीता 'नफातोटा खाते' तयार करा :

	₹
वेतन	60,000
अंकेक्षण शुल्क	1,875
बुडित कर्ज	3,750
व्याज (जमा)	7,500
भविष्य निधीत योगदान	33,000
सकल लाभ	1,35,000
इमारत घसारा	36,000
कमिशन (नावे)	5,250
भाडे (जमा)	6,000

3

(ग) चुकांच्या दूरुस्ती बाबत किर्दनोदी करा :

- (i) महेशला ₹ 6,000 चा माल विकला. परंतु त्याची नोंद खरेदी पुस्तकात करण्यात आली.
- (ii) शरद कडून ₹ 4,000 चा घनादेश मिळाला त्याचे अनादरण झाले व तो कसर लेख्याला नावे करण्यात आला. 4

(ह) निलंबित लेखा म्हणजे काय ? 4

3. (अ) अजय इंडस्ट्रिज ने 1 जानेवारी, 2015 ला ₹ 96,400 परिव्यय मुल्याचे एक यंत्र खरेदी केले व त्यांच्या प्रतीस्थापनेसाठी ₹ 3,600 खर्च केले. संयंत्राचे अनुमानित आयुष्य 10 वर्ष असून त्याचे अवशिष्ट मूल्य ₹ 4,000 राहिल. दरवर्षी 31 मार्च ला पुस्तके बंद होतात असे गृहित धरून.

प्रथम वर्षासाठी घसारा राशी आगणित करा. 3

- (ब) खाली दिलेल्या माहितीवरून वर्ष 2015 करिता "आयव्यय खाते" तयार करा :

₹

शोधन :

भृती	10,000
उपस्कर खरेदी	30,000
खेळ सामान खरेदी	25,000
विविध खर्च	1,52,000

₹

प्राप्ती :

शिल्लक (1-4-2014)	50,000
वर्गणी	1,65,000
सभासद शुल्क	1,20,000
अवशेष विक्री	2,000
क्रिडा निधी गुंतवणूकीवर व्याज	20,000

अतिरिक्त माहिती :—

- (i) अप्राप्त वर्गणी ₹ 10,000
- (ii) अदत्त भृती ₹ 10,000. 3
- (क) श्री किरणकुमार यांनी 1 ऑक्टो. 2012 रोजी एक यंत्र
₹ 45,000 ला खरेदी केले. ते बसविण्यासाठी ₹ 5,000 खर्च
आला. घसारा 10% दराने न्हासमान आधिक्य पद्धतीने
आकारण्यात येतो खाते 31 मार्च ला बंद होतात. तीन
वर्षासाठी यंत्र खाते तयार करा. 4
- (ड) खाते कोणत्या संस्था तयार करतात ? 4

किंवा

(इ) खालील शिलकांच्या आधारे तुषार क्रिडा मंडळाचा 31 मार्च, 2015 रोजीचा ताळेबंद तयार करा :

	₹		₹
हस्तस्थ रोक	21,600	सरकारी प्रतिभूती	1,60,000
आगाऊ वर्गणी प्राप्त	400	अदत्त वेतन	2,400
फर्निचर	4,000	इमारत	4,00,000
अप्राप्त वर्गणी	14,000	गुंतवणूक	7,600
भांडवल निधी	6,04,400		

3

(फ) खालील शिलकांच्या आधारे 31 मार्च, 2015 ला संपणाऱ्या वर्षासाठी 'आयव्यय खाते' तयार करा :

प्राप्ती	₹
सुरवातीची शिल्लक	50,000
वर्गणी मिळाली	90,000
अजीवन सभासद शुल्क (आगम)	1,00,000
जुन्या वर्तमान पत्रांची विक्री	2,000
गुंतवणूकीवर व्याज	10,000
	2,52,000
शोधन	
मजुरी व पगार	10,000
फर्निचर	20,000
खेळाचे सामान	12,000
इतर खर्च	70,000
अखेरची शिल्लक	1,40,000
	2,52,000

अतिरिक्त माहिती :—

(i) क्लबचे प्रत्येकी ₹ 100 सभासदत्वाची फी देणारे 1100
आजीवन सभासद आहेत.

(ii) किरकोळ खर्च देणे बाकी ₹ 2,000. 3

(ग) एका कंपनीने 1 एप्रिल, 2014 रोजी ₹ 1,00,000 ला एक
यंत्र खरेदी केले कंपनीने 1 ऑक्टो, 2014 रोजी आणखी
एक यंत्र ₹ 46,000 खरेदी केले व ते बसविण्यासाठी
₹ 4,000 खर्च केला. लेखे 31 मार्च रोजी बंद होतात
घसारा 10% दराने स्थिर प्रभाग पद्धतीने आकारण्यात
येतो.

प्रथम वर्षासाठी पंजी प्रविष्ट्या द्या. 4

(ह) न्हासमान आधिक्य पद्धतीचे फायदे-तोटे स्पष्ट करा. 4

4. सहकारी खरेदी विक्री संघाची 31 मार्च, 2015 रोजीची परिक्षा
सुची पूढील प्रमाणे :

नावे	₹	जमा	₹
खरेदी	55,00,000	विक्री	54,08,000
वाहन व्यय	90,000	बँकेचे कर्ज	5,00,000
मजुरी	20,000	प्राप्त कमिशन	4,20,000
उपस्कर	2,00,000	देय विपत्र	1,50,000
वेतन	2,80,000	धनको	2,00,000
प्रवास व्यय	18,000	यंत्र घसारा निधी	20,000

नावे	र	जमा	र
भाडे	38,000	भाग भांडवल	4,00,000
सुरवातीचा मालसाण	4,04,000	नफातोटा खाते	30,000
प्राप्य विपत्र	1,50,000		
पोस्टेज	9,000		
जाहिरात	24,000		
व्याज दिले	2,58,000		
बँक शिल्लक	10,000		
रोख शिल्लक	9,000		
विमा प्रव्याजी	18,000		
यंत्र	1,00,000		
	71,28,000		71,28,000

समायोजना :—

- (i) अंतिम मालसाठा ₹ 16,00,000.
- (ii) यंत्राच्या पूस्तकी मूल्यावर 10% दराने घसारा आकारा.
- (iii) अदत्त वेतन ₹ 10,000.
- (iv) पूर्वदत्त विमा प्रव्याजी ₹ 2,000.
- (v) उपार्जित परंतु अप्राप्त व्याज ₹ 6,000.

(vi) अंशघाच्यांना 9% दराने लाभांश देण्यासाठी तरतूद करा.

वरील माहितीवरून व्यापार खाते, नफातोटा खाते, नफातोटा नियोजन खाते व ताळेबंद तयार करा. 14

किंवा

कृषी कार्यात लेखांकन लोकप्रिय का नाही ? स्पष्ट करा. कृषी लेखांकनाची वैशिष्ट्ये सांगा. 14

5. श्री दिवाकर यांनी खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे 1 एप्रिल, 2015 नादारीसाठी कोर्टाजि कर्ज केल :

(i) भांडवल ₹ 80,000; व्यावसायीक हानी ₹ 70,000; भांडवलावर व्याज ₹ 15,000; अव्यापारीक लाभ ₹ 19,000; अव्यापारिक हानी ₹ 9,000.

(ii) धनको ₹ 80,000; देयविपत्र ₹ 20,000; अधिविकर्ष ₹ 10,000.

(iii) बँकेकडून कर्ज ₹ 60,000 (ज्यासाठी ₹ 70,000 चे यंत्र तारण) तसेच अंशता सुरिक्षत कर्ज ₹ 30,000 (यंत्राच्या आधिक्यावर द्वितीय प्रभाव)

(iv) इमारत ₹ 50,000 (40% वसूली मूल्य), उपस्कर ₹ 25,000 (60% वसूली मूल्य), प्राप्य विपत्र ₹ 20,000 (सममूल्य), गुंतवणूक ₹ 60,000 (50% वसूली मूल्य), रोख ₹ 16,000.

(v) विविध अघमर्ण — शोध्य ₹ 24,000; संदिग्ध ₹ 20,000 (1/5 वसूली); पूर्वाधिकार धनको ₹ 50,000.

वरिल माहितीच्या आधारे अवस्था विवरण व हिनना खाते तयार करा. 14

किंवा

श्री बेफिकीर यांचे खालील दिलेल्या माहितीवरून अवस्था विवरण
व हिनता खाते तयार करा :

	₹
भांडवल (1-4-2014)	44,790
आहरण (31-3-2015)	18,610
व्यापार में हानी (31-3-2015)	29,300
अधिमान्य धनको	2,080
अप्रतिभूत धनको	80,640
बँक शिल्लक	230
हस्तस्थ रोख	70
पूस्तऋण (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 20,500)	27,370
स्कंध (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 8,300)	13,200
संयंत्र (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 15,000)	21,250
उपस्कर (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 1,200)	2,480
निर्माणी भवन (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 55,000, ₹ 45,000 ऋणाकरीता गहाण आहे)	60,000
	14

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न हल कीजिए।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) 'पंजी' को दो परिभाषाएं दीजिए। 3

(ब) 1 अप्रैल, 2015 को श्री अशोक की संपत्ती एवं देयताएं निम्नांकित हैं :

	₹
हस्तस्थ रोक	1,500
अधिकोषस्थ रोक	7,500
वस्तुओं का स्कंध	15,000
उपस्कर	3,000
यंत्र	30,000
स्मिता से ऋण	7,500
क्रय के उत्तमर्ण	4,500
संयुक्त पंजी प्रविष्टी कीजिए।	3

(क) निम्न जानकारी से तलपट तैयार कीजिए :

रोक ₹ 12,400; प्राप्य लेखे ₹ 880; क्रय ₹ 1,840; पूर्वदत्त
आगोप ₹ 1,600; संसाधने ₹ 17,600; पूंजी ₹ 14,800,
आहरण ₹ 1,680; देय लेखे ₹ 16,800; विक्रय ₹ 5,960;
वैध व्यय ₹ 1,560. 4

- (ड) अगर एक व्यवसाय की संपत्तियाँ ₹ 5,00,000 एवं देयताएं ₹ 3,00,000 हैं तो स्वामित्व समता कितनी होगी ?

4

अथवा

- (इ) द्विप्रभाव अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 3
- (फ) निम्न व्यवहारों की प्रविष्टियाँ श्री रमेश की क्रय प्रत्याय पुस्तक में कीजिए :

मार्च

2015

₹

8	दिनेश को वस्तुओं की वापसी	1,200
15	केशव को वस्तुओं की वापसी	750
20	नेहा को वस्तुओं की वापसी	1,250
26	यमुना को वस्तुओं की वापसी	500
30	कांता की वस्तुओं की वापसी	800

3

- (ग) निम्न जानकारी से सामान्य लघु रोक पुस्तक तैयार कीजिए :

जनवरी

2015

₹

1	रोखपाल से चेक प्राप्त हुआ	2,100
4	अखबार का बिल दिया	125
8	टैक्सी किराया दिया	180
10	मजदूरी दी	250

जनवरी

2015

₹

22 लेखन सामग्री क्रय 350

25 हमाल को मजदूरी दी 700

31 राजस्व मुद्रांक क्रय 345

4

(ह) अगर स्वामित्व पूँजी ₹ 10,00,000 और देयताएँ ₹ 2,00,000 हैं तो सम्पतियाँ कितनी होगी ? 4

2. (अ) निम्न आधिक्याओं से 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "व्यापार लेखा" तैयार कीजिए :

₹

प्रारंभण स्कंध 10,000

वस्तुओं का क्रय (₹ 30,000 नगद क्रय समेत) 2,20,000

विक्रय (इसमें ₹ 60,000 उधार बिक्री सम्मिलित है) 2,18,800

हमाली खर्च (जिसमें ₹ 1,000 विक्रय से संबंधित है) 3,000

क्रय पर दिया हुआ वर्तन 4,000

माल का संवरण स्कंध 7,500

क्रय पर किया हुआ वाहन व्यय 4,000

क्रय पर किया हुआ आगोप व्यय 3,000

₹

चुंगी और अन्य कर (जिसमें ₹ 13,000 का बिक्रीकर सम्मिलित है)	20,000
क्रय प्रत्याय	10,000
विक्रय प्रत्याय	5,000

3

(ब) निम्न जानकारी से 31 मार्च, 2015 का स्थितीविवरण
तैयार कीजिये :

₹

अधिकोष शिल्लक	30,000
धनको	28,000
अदत्त किराया	1,000
अधमर्ण	54,000
संवरण स्कंध	12,000
पूँजी	2,00,000
शुद्ध हानि	48,000
पूर्वदत्त मजदूरी	4,000
यंत्र सामुग्री	63,000
आहरण	18,000

3

(क) निम्नलिखित विभ्रम के सुधार के लिए संशोधन की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए :

(i) व्यवसाय स्वामी ने स्वयं के निजी हेतु ₹ 5,000 का आहरण किया जिसकी प्रविष्टी खर्च खाते में विकलीत की गयी।

(ii) संतोष से क्रय किये गये ₹ 10,000 के माल की प्रविष्टि भूल से विक्रय पुस्तक में की गयी। 4

(ड) निम्नलिखित विभ्रमों के सुधार के लिए संशोधन प्रविष्टियाँ दीजिए :

(i) नितिन से ₹ 4,000 का माल क्रय किया लेकिन उसकी प्रविष्टी विक्रय किताब में हुई।

(ii) निलिमा से प्राप्त ₹ 1,200 का धनादेश अनादरित हुआ और उसको अपहार खाते में विकलीत किया गया। 4

अथवा

(इ) निम्न जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2015 के लिये 'उत्पादन लेखा' तैयार कीजिए :

₹

प्रारंभन स्कंध :

कच्चा माल	1,00,000
अर्ध तैयार माल	70,000
तैयार माल	1,20,000

₹

संवरण स्कंध :

कच्चा माल	40,000
अर्ध तैयार माल	80,000
तैयार माल	1,50,000
कच्चे माल का क्रय	6,00,000
क्रय प्रत्याय	5,000
विक्रय	9,00,000
विक्रय प्रत्याय	20,000
भृति	45,000
शक्ति	26,000
आगत वाहन व्यय	20,000

3

(फ) 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये
लाभालाभ लेखा तैयार कीजिये :

₹

वेतन	60,000
अंकेक्षण शुल्क	1,875
अशोध्य ऋण	3,750
ब्याज (जमा)	7,500
भविष्य निधि में योगदान	33,000

	₹
सकल लाभ	1,35,000
भवन पर अवमूल्यन	36,000
कमीशन (नावे)	5,250
भाडे (जमा)	6,000

3

(ग) निम्नलिखित विध्वनों के सुधार के लिये संशोधन की प्रविष्टियाँ दीजिए :

(i) महेश को ₹ 6,000 का माल बेचा, लेकिन उसकी प्रविष्टी क्रय किताब में की गयी।

(ii) शरद से प्राप्त ₹ 4,000 का धनादेश अनादरित हुआ और उसको कसर खाते में विकसित किया। 4

(ह) 'निलंबित खाता' क्या है ? 4

3. (अ) अजय इंडस्ट्रीज ने 1 जनवरी, 2015 को ₹ 96,400 की लागत से एक मशीन खरीदी और ₹ 3,600 उसे लगाने में खर्च किये। मशीन का अनुमानित जीवनकाल 10 वर्ष है तथा अन्त में अवशिष्ट मूल्य ₹ 4,000 होगा। प्रतिवर्ष पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती हैं।

प्रथम वर्ष के लिए अवक्षयण राशी निकालिये। 3

(ब) निम्नलिखित जानकारी से वर्ष 2015 का "आयव्यय खाता" तैयार कीजिए :

₹

शोधन :

भृति	10,000
उपस्कर खरेदी	30,000
क्रीडा साहित्य खरेदी	25,000
विविध व्यय	1,52,000

प्राप्ति :

शेष (1-4-2014)	50,000
वर्गणी	1,65,000
सदस्य शुल्क	1,20,000
अवशेष बिक्री	2,000
क्रीडा संचिती विनियोग पर प्राप्त ब्याज	20,000

अतिरिक्त जानकारी :—

(i) अप्राप्त वर्गणी ₹ 10,000

(ii) अदत्त भृती ₹ 10,000. 3

(क) श्री किरण कुमार ने 1 अक्टूबर, 2012 को एक यंत्र ₹ 45,000 में खरेदी किया। उसकी स्थापना के लिए ₹ 5,000 खर्च हुआ। अवक्षयन वार्षिक 10% से क्रमागत

हास पद्धति से अवक्षयन किया जाता है। खाता 31 मार्च को बंद किया जाता है। तीन वर्ष के लिए 'यंत्र खाता' तैयार कीजिये। 4

(ड) आयव्यय लेखे कौनसी संस्थाएं तैयार करती है ? 4

अथवा

(इ) निम्न जानकारी से 31 मार्च, 2015 का तुषार क्रीडामंडल का स्थितिविवरण तैयार कीजिये :

	₹		₹
हस्तस्य रोक	21,600	सरकारी प्रतिभूती	1,60,000
अग्रिम चंदा प्राप्त	400	अदत्त वेतन	2,400
फर्निचर	4,000	भवन	4,00,000
अप्राप्त चंदा	14,000	निवेश	7,600
पूँजी निधि	6,04,400		

3

(फ) 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "आयव्यय लेखा" तैयार कीजिये :

प्राप्ती	₹
शुरूआत की शेष	50,000
ग्राहकों से प्राप्त चंदा	90,000
आजीवन सदस्यता शुल्क (आगम)	1,00,000
पुराने अखबारों की बिक्री	2,000
निवेश पर ब्याज	10,000
	2,52,000

शोधन	₹
भृती तथा वेतन	10,000
फर्निचर	20,000
क्रीडा साहित्य	12,000
विविध व्यय	70,000
अंतिम शेष	1,40,000
	2,52,000

अन्य जानकारी :—

- (i) क्लब के प्रति ₹ 100 सदस्यता शुल्क देने वाले 1100 आजीवन सदस्य है।
- (ii) अदत्त विविध व्यय ₹ 2,000. 3
- (ग) एक कंपनी ने 1 अप्रैल, 2014 रोजी ₹ 1,00,000 का एक यंत्र खरीदा। 1 अक्टूबर, 2014 को कंपनी ने और एक यंत्र ₹ 46,000 में खरीदा जिसका स्थापना व्यय ₹ 4,000 आया। प्रति साल 10% स्थिर प्रभाग पद्धति से उसे अपलेखित करना तय किया।
- प्रथम वर्ष के लिए पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए। 4
- (ह) क्रमागत हास विधि के लाभ-हानि स्पष्ट कीजिये। 4

4. खरेदी विक्री सहकारी संघ की निम्न 'परीक्षा सूची' 31 मार्च, 2015 को निम्न प्रकार है :

नावे	₹	जमा	₹
क्रय	55,00,000	विक्री	54,08,000
वाहन व्यय	90,000	अधिकोष से ऋण	5,00,000
भृती	20,000	प्राप्त कमिशन	4,20,000
उपस्कर	2,00,000	देय विपत्र	1,50,000
वेतन	2,80,000	उत्तमर्ण	2,00,000
प्रवास व्यय	18,000	यंत्र अवमूल्यन प्रणिवी	20,000
भाटक	38,000	अंश पूँजी	4,00,000
प्रारंभन स्कंध	4,04,000	लाभ-हानि लेखा	30,000
प्राप्य विपत्र	1,50,000		
प्रेष शुल्क	9,000		
विज्ञापन	24,000		
दत्त ब्याज	2,58,000		
अधिकोषस्य रोक	10,000		
हस्तस्य रोक	9,000		
बीमा प्रव्याजी	18,000		
संयत्र	1,00,000		
	71,28,000		71,28,000

समायोजना :—

(i) संवरण स्कंध ₹ 16,00,000.

(ii) संयत्र के पुस्तकीय मूल्य पर 10% अवमूल्यन निकालिये।

(iii) अदत्त वेतन ₹ 10,000.

(iv) पूर्वदत्त बीमा प्रव्याजी ₹ 2,000.

(v) अर्जित परंतु उपार्जित ब्याज ₹ 6,000.

(vi) अंशधारकों के लिए 9% लाभांश की तरतूद कीजिये।

ऊपर दिये गये जानकारी के आधार पर 'व्यापार लेखा', लाभालाभ लेखा, लाभालाभ नियोजन लेखा और स्थितिविवरण तैयार कीजिये।

14

अथवा

कृषि कार्य में लेखांकन क्यों लोकप्रिय नहीं है ? स्पष्ट कीजिये।
कृषि लेखांकन की विशेषताएँ बताइये।

14

5. श्री दिवाकर ने निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 1 अप्रैल, 2015 को दिवालिया हेतु न्यायालय में आवेदन किया :

(i) पूँजी ₹ 80,000; व्यापारिक हानि ₹ 70,000; पूँजी पर ब्याज ₹ 15,000; गैर व्यापारिक लाभ ₹ 19,000 तथा गैर व्यापारिक हानि ₹ 9,000.

(ii) उत्तमर्ण ₹ 80,000; देयविपत्र ₹ 20,000; अधिविकर्ष ₹ 10,000.

(iii) अधिकोष ऋण ₹ 60,000 (₹ 70,000 के यंत्र की प्रतिभूती पर) तथा अंशतः प्रतिभूत उत्तमर्ण (यंत्र के अतिरेक पर द्वितीय प्रभार) ₹ 30,000.

(iv) भवन ₹ 50,000 (40% रोकीकृत), उपस्कर ₹ 25,000 (60% रोकीकृत), प्राप्यविपत्र ₹ 20,000 (सममूल्य), विनीयोग ₹ 60,000 (50% रोकीकृत) रोक ₹ 16,000.

- (v) विविध अद्यमर्ण — शोध्य ₹ 24,000; संदिग्ध ₹ 20,000
(1/5 वसूली) अधिमान्य उत्तमर्ण ₹ 50,000.

ऊपर दिये जानकारी के आधार पर अवस्था विवरण एवं
हीनता खाता तैयार कीजिये। 14

अथवा

श्रीमान बेफिकीर का निम्नलिखित जानकारी से 'अवस्था विवरण'
तथा 'हीनता लेखा' तैयार कीजिये :

	₹
पूँजी (1-4-2014)	44,790
आहरण (31-3-2015)	18,610
व्यापार में हानि (31-3-2015)	29,300
अधिमान्य धनको	2,080
अप्रतिभूत धनको	80,640
बैंक शिल्लक	230
हस्तस्थ रोक	70
पूस्तश्रपण (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 20,500)	27,370
स्कंध (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 8,300)	13,200
संयत्र (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 15,000)	21,250
फर्निचर (अनुमानित वसूली मूल्य ₹ 1,200)	2,480
निर्माणी भवन (अनुमानित वसूली मूल्य, ₹ 55,000 ₹ 45,000 श्रपण के लिये तारण)	60,000

